



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT



Faceless Assessment: India

To,
NOELLA SHEILA RODRIGUES
1ST FLOOR VILLA DIANA,GOKHALE ROAD NORTH
DADAR
MUMBAI 400028,Maharashtra

PAN:
ADXP7318Q

Assessment Year:
2016-17

Date:
01/09/2023

DIN:
ITBA/AST/F/142(1)/2023-
24/1055669120(1)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत सूचना
Notice under sub-section (1) of Section 142 of the Income Tax Act, 1961

महोदय/महोदया/मैसर्स
Sir/ Madam/ M/s,

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण के संबंध में, आपको निम्न करने की आवश्यकता है:

In connection with the assessment for the assessment year 2016-17, you are required to:

- क) 18/09/2023 11:00 AM को या उससे पहले अनुलग्नक के अनुसार मांगे गए खातों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करें, अथवा प्रस्तुत कराएं। या
- a) Produce, or cause to be produced, the accounts and documents called for as per annexure on or before 18/09/2023 11:00 AM or
- ख) अनुलग्नक के अनुसार और उसमें निर्दिष्ट बिंदुओं या मामलों पर मांगी गई जानकारी जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 ख के अनुसार निर्धारित तरीके से प्रमाणित हो 18/09/2023 11:00 AM को या उससे पहले प्रस्तुत करें।
- b) Furnish the information called for as per annexure and on the points or matters specified therein and authenticated in the prescribed manner as per section 144B of the Income-tax Act,1961 on or before 18/09/2023 11:00 AM.
- ग) उपरोक्त साक्ष्य/सूचना आयकर विभाग की 'ई-फाइलिंग' वेबसाइट (www.incometax.gov.in) में आपके खाते के माध्यम से 'ई-प्रोसीडिंग्स' सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानी है। ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर 'ई-प्रोसीडिंग्स'/'पहचान विहीन निर्धारण' पर संक्षिप्त नोट उपलब्ध हैं।
- c) The above-mentioned evidence/information is to be furnished electronically in 'e-Proceedings' facility through your account in 'e-Filing' website of Income Tax Department (www.incometax.gov.in). Brief note

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.

on 'e-Proceedings'/'Faceless Assessment' are available on the e-Filing website (www.incometax.gov.in).

Yours faithfully,

Assessment Unit/Verification Unit/Technical Unit/Review Unit

Income Tax Department

NOTE: To know the originator Unit of this Communication, kindly see the Digital Signature.



अनुलग्नक ANNEXURE

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के तहत निम्नलिखित खाते या दस्तावेज या जानकारी मांगी गई है:
1. **The following accounts or documents or information is/are sought under section 142(1) of the Income-tax Act, 1961:**
 1. Furnish a brief note on source of income during the year under assessment.
 2. It is noted from the records that you have not filed ITR for A.Y 2016-17 in response to the Notice u/s 148 issued on 26.03.2023 which has resulted in non-compliance of the notice u/s 148. You were required to make compliance within 30 days of receipt of notice. You are required to explain the reason of non-compliance of the notice dated 26.03.2023.
 3. Provide computation of income for A.Y 2016-17.
 4. Provide details of all movable, immovable assets and investments as on 31.03.2015 and as on 31.03.2016.
 5. Furnish the copies of statement of all bank accounts maintained during the period along with narration of debit and credit entries for the period of FY 2015-16.
 6. Furnish copy of deed in respect of immovable property purchased for consideration of Rs. 70,91,100/- on 24.04.2015 alongwith sources of funds with relevant documents.
 7. Details of sale of equity shares (settled otherwise than by the actual delivery) in a recognized stock exchange during the F.Y 2015-16 with copy of statement, ledger in the books of broker and statement of profit and loss of the same.
 8. Details of sale of equity shares (settled by the actual delivery) in a recognized stock exchange during the F.Y 2015-16 with copy of statement, ledger in the books of broker and statement of profit and loss of the same.
 9. Explain the sources of funds for investment in equity shares during the F.Y 2015-16.
 10. Furnish financial statements/statement of affairs including schedules pertaining to A.Y. 2016-17 and A.Y 2015-16.

Assessment Unit/Verification Unit/Technical Unit/Review Unit
Income Tax Department

NOTE: To know the originator Unit of this Communication, kindly see the Digital Signature.